

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 435]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 अगस्त 2021 — श्रावण 20, शक 1943

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 अगस्त 2021

सूचना

क्रमांक एफ 11-03/2021/सात-4. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित करना तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व अग्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रायगढ़	बरमकेला	सरिया	राजस्व निरीक्षक मण्डल सरिया के पटवारी हल्का नं. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 44 एवं 45 के कुल 36 ग्राम. राजस्व निरीक्षक मण्डल गोबरसिंहा के पटवारी हल्का नं. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 एवं 14 के कुल 44 ग्राम. अतः कुल 19 पटवारी हल्के के 80 ग्राम नवीन तहसील “सरिया” में शामिल होंगे.	उत्तर — तहसील—पुसौर, जिला—रायगढ़ दक्षिण — तहसील—बरमकेला, जिला—रायगढ़ पूर्व — तहसील—अम्बाभौना, जिला—बरगढ़ (उड़ीसा) पश्चिम — तहसील—सारंगढ़, जिला—रायगढ़

2	रायगढ़	धरमजयगढ़	छाल	<p>राजस्व निरीक्षक मण्डल छाल के पटवारी हल्का नं. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 एवं 58 के कुल 30 ग्राम.</p> <p>राजस्व निरीक्षक मण्डल हाटी के पटवारी हल्का नं. 42, 43, 44, 45, 46 एवं 59 के कुल 19 ग्राम.</p> <p>अतः कुल 14 पटवारी हल्के के 49 ग्राम नवीन तहसील "छाल" में शामिल होंगे.</p>	<p>उत्तर – तहसील—धरमजयगढ़, जिला—रायगढ़</p> <p>दक्षिण – तहसील—खरसिया, जिला—रायगढ़</p> <p>पूर्व – तहसील—घरघोड़ा, जिला—रायगढ़</p> <p>पश्चिम – तहसील—करतला, जिला—कोरबा</p>
---	--------	----------	-----	---	--

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 11th August 2021

NOTICE

No. F 11-03/2021/Seven-4. — In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government proposes to alter the limits of Tahsil specified in column (3), to create a new Tehsil specified in column (4) and to define the limits thereof as specified in the Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Revenue and Disaster Management, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capitol Complex, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S. No.	District	Present Tahsil	New Tahsil	Nature of Change	Boundaries of new Tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Raigarh	Baramkela	Sariya	<p>Total 36 villages of Patwari Halka No. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 44 and 45 of Revenue Inspector Mandal Sariya.</p> <p>Total 44 villages of Patwari Halka No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 and 14 of Revenue Inspector Mandal Gobarsingha.</p> <p>Hence, 80 villages of total 19 Patwari Halka shall be included in new Tahsil "Sariya".</p>	<p>North - Tahsil – Pussore, District – Raigarh</p> <p>South - Tahsil – Baramkela, District – Raigarh</p> <p>East - Tahsil – Ambabhauna, District – Bargarh (Odisha)</p> <p>West – Tahsil – Sarangarh, District – Raigarh</p>

2	Raigarh	Dharamjaigarh	Chhal	<p>Total 30 villages of Patwari Halka No. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 and 58 of Revenue Inspector Mandal Chhal.</p> <p>Total 19 villages of Patwari Halka No. 42, 43, 44, 45, 46 and 59 of Revenue Inspector Mandal Hati.</p> <p>Hence, 49 villages of total 14 Patwari Halka shall be included in new Tahsil "Chhal".</p>	<p>North - Tahsil – Dharamjaigarh, District – Raigarh</p> <p>South - Tahsil – Kharsia, District – Raigarh</p> <p>East - Tahsil – Gharghoda, District – Raigarh</p> <p>West – Tahsil – Kartala, District – Korba</p>
---	---------	---------------	-------	---	---

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.